




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 534]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्राहायना 10, 1903

No. 534]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1981/AGRAHAYANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

अम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1981

का० प्रा० 881 (ख).—ग्रेनाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रशनों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के नियतन के लिए कुछ प्रत्यापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की प्रमेयानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 538 (घ) तारीख 3 जुलाई, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 3 जुलाई, 1981 के पृष्ठ 893-894 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 जुलाई, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रवर्तित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ग्रेनाइट खानों के नियोजन में नियोजित

ऐसे कर्मचारियों के प्रशनों का, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में नियत करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

## अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

## अनुसूची :

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, 7.75 रु० (भूमि के क्लीनर, खालसी लवाई करने वाला, ऊपर कार्य करने के लिए)	9.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
वाहक (पत्थर), वाहक ठेले वाला, अभिरक्षक, कन्क्रीट हस्त मिश्रक, ग्राइवर (बैल, ऊंट, गधा, खज्वर), लैम्पमैन, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, जेली मेकर, मोबर बर्डन रिमूवर, बेस्ट रिमूविंग मजदूर अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अनुसूची में हैं ।	

## भर्तों कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

भिषगी, ब्रेकर, ड्रिलर, परिचर, रसोइया, क्रेच 9.75 रु० (भूमि के ऊपर  
घाया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, कार्य करने के लिए)  
मैट, घायल मैन, पम्प खलासी, शाट 11.75 रु० (भूमि के  
फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, खदान नीचे कार्य करने के  
प्रचालक, स्टोर मैन, स्टॉकर, बायलर मैन, लिए)  
शैबर, घुमथा मैन, टिडल, ट्राफीमैन, जमादार  
शैर, ब्रेक्समैन, मददगार (जैन ट्रक) डिम्बर  
मैन, जैक हैमर, स्टोन कटर और ड्रेसर. बिजल  
मैन, अन्य प्रवर्ग चाहें वह किसी भी नाम  
से ज्ञात हों जो भर्तों कुशल/अकुशल पर्य-  
वेक्षी हैं।

## कुशल :

लीहार, बड़ई, कम्पाउण्डर, बिजली-मिस्त्री, 11.75 रु० (भूमि के  
फारमैन फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान ऊपर कार्य करने के  
रसोइया, इंजन मैन, मैल्डर बिस्कीटकर्ता, लिए)  
मशीनिस्ट, सव-ओवरसीयर (अनहित), सर्वे-  
झक, प्रचालक, कोई अन्य प्रवर्ग चाहें वह 14.00 रु० (भूमि के  
किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल नीचे कार्य करने के  
प्रकृति के हैं। लिए)

## लिपिकीय :

सैन्नाकार, लिपिक, मुंशी, भण्डार लिपिक, 11.75 रु०  
सामग्री देने वाला, भण्डारी (श्रेणी 1 और  
2) टैली लिपिक, टाइमकीपर, टूल कोपर,  
कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक अभिलेखपाल  
अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात  
हों, जो लिपिकीय हैं।

## स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-

1. इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी घर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मुख्य सम्मिलित हैं तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए वेतन मजदूरी भी सम्मिलित हैं।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अष्टादश वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथम कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम शिष्ट के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक

संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वचरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक हैं।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[एस० 32019/17/81 डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st December, 1981

S.O. 861 (E).—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in granite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 893-894 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 3rd July, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 538(E) dated the 3rd July, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd July, 1981;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, after consulting the Advisory Board, fixes the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employment in granite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

## SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Quarry worker, Hole cutter, Earth-cutter, Carrier (stone), Carrier Cartman, Caretaker, Concrete hand mixer, Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Jally maker, Over burden remover, Waste removing mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 7.75 (for work above ground). Rs. 9.25 (for work below ground)

(1)	(2)
<b>Semi-skilled/unskilled supervisory :</b>	
Bhisti, Breaker, Driller, Attendant, Cook, Creche-ayah, Head chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (crane, truck), Timberman, Jack hammer, Stone cutter and dresser, Chisel man, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 9.75 (for work above ground). Rs. 11.75 (for work below ground).

**Skilled :**

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 11.75 (for work above ground). Rs. 14.00 (for work below ground).
--	--

**Clerical :**

Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store, issuer, Store keeper (grade I and II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 11.75
--	-----------

**Explanation for the purpose of this notification :**

1. The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. (a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the

minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[S-320 19/17/81-WC/(MW)]

का० प्रा० 862(प्र):- लोह प्रयस्क खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के नियतन के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 537(प्र), तारीख 3 जुलाई, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 3 जुलाई, 1981 के पृष्ठ 891-892 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जुलाई 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लोह प्रयस्क खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को जो इससे उपाय्य अनुसूची के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रतिष्ठित में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनर्लिखित करती है और निवेष्टा वेती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

**अनुसूची**

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
<b>अकुशल :</b>	
(1) बटलर, (2) अभिरक्षक (3) चौकीदार (4) क्लीनर (5) ड्रेसर (6) श्रमिक (7) सवाई करने वाला (8) मजदूर (9) संदेशवाहक (10) मम्बर टेकर (11) आफिसबॉय (12) चपरासी (13) पिकर (14) छंटाईकार (15) झाड़ूकण (16) ट्रामर (17) ट्रालीमैन (18) ट्राली टिप्पर (19) पानी से जाने वाला (20) खुदाई करने वाला (21) मचर (22) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अकुशल हैं।	7.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 9.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
<b>अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक :</b>	
1. घाया (2) बेक मन (3) ब्रेनसमैन (4) केश गाई (5) चेकर (6) घोड़ी (7) रसोइया (8) फायरमैन (9) ग्राइंडर (10) ग्रीजर (11) हथौड़ा चलाने वाला (12) मचदगार बकुई, ट्रिलर, बिस्फोटकर्ता	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1

2

केसर प्रचालक (13) जमादार (14) खलासी (बुल डोजर, प्रावि) (15) लैप्प रूप ईचार्ज (16) मैट (धातुसाधक खान नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना), (17) घायल (18) प्लास्टमैन, (19) मयूना लेने वाला (20) स्टोर मैन (21) माली (22) अन्य प्रयोग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

- (1) लोहार (2) विस्कोटकर्ता (शाट फायरर) 11.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)  
(3) बड़ई (4) चार्जमैन (5) रसायनज्ञ (6) कम्पाउण्डर (7) नकशानवीस (8) ड्रिलर (9) ड्राइवर (10) बिजली मिस्त्री, (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज, (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ्स (16) मिस्त्री (17) मोल्डर (18) प्रचालक (19) ओवरसियर (20) वेंटर (21) फाथ फिटर (22) पर्यवेक्षक (23) सर्वेक्षक (24) टिन-स्मिथ (25) टिम्बरमैन (26) खरदिया (27) वेल्डर (28) बाथर मैन (29) सफ़्त पर्यवेक्षक (30) मेड (धातु उत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र सहित), (31) ग्रावेल प्रचालक, (32) बैल्सू मैन (33) डोजर प्रचालक (34) डम्पर ट्रेक्टर प्रचालक (35) वेंटर (36) अन्य प्रयोग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।

लिपिकीय:

- (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) मंजारी (5) ट्रेसर (6) टाइम कीपर (7) टर्कर (8) अन्य प्रयोग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन में

1. इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम है, जिसमें भाव्यारी दर, जीवन निर्वाह मत्ता, प्राण मत्ता दर पर किए गए प्रयोगों का, यदि कोई हो है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी

रें  
T-  
त  
।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा को भी लागू हैं।

रों

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अस मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रयोग के व्यस्क कामकाज का कार्य वरों का क्रमशः प्रवृत्ति प्रतिशत और सो प्रतिशत होगी।

रय

4 (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता करने वाली प्रथम कुछ भी कुशलता, या अनुभव अपेक्षित न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[एस० 32019/3/80-डबल्यू सी (एम डबल्यू)]

S.O. 862(E).—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Iron Ore Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 891-892 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 3rd July, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 537(E) dated the 3rd July, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected, thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd July, 1981.

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, after consulting the Advisory Board, fixes the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed thereto, payable to the categories of employees employed in employments in Iron Ore mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

#### SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
<b>Unskilled :</b>	
(1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker, (14) Sorter,	Rs. 7.75 (for work above ground.) Rs. 9.25 (for work below ground).

(1)	(2)
(15) Sweeper, (16) Trammer, (17) Trolleyman, (18) Trollytripper, (19) Water carrier, (20) Digger, (21) Lucher, (22) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 7.75 (for work above ground). Rs. 9.25 (for work below ground).

## Semi-skilled/Unskilled Supervisory :

(1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi (7) Cook, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Greaser, (11) Hammerman, (12) Helper carpenter, driller, blaster, (crasher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (buldozer etc.), (15) Lamp room incharge, (16) Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations 1961), (17) Oiler, (18) Pointman, (19) Sampler, (20) Storeman, (21) Mall, (22) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 9.75 (for work above ground). Rs. 11.75 (for work below ground).
---	---

## Skilled :

(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) Carpenter, (4) Chageman, (5) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipe-fitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24) Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Surface supervisor, (30) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (31) Shovel Operator, (32) Valuer, (33) Dozer operator, (34) Dumper tractor operator, (35) Painter, (36) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 11.75 (for work above ground). Rs. 14.00 (for work below ground).
--	--

## Clerical :

(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register keeper, (4) Stor-keeper (5) Tracer, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 11.75
--	-----------

## Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[S. 23019/3/80-WC (MW)]

का० भा० 863 (अ)- नवार्टज खानों, नवार्टजखट खानों और सिलिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रश्नों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की प्रवधानानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० भा० 403 (अ) तारीख 30 मई, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 30 मई, 1981 के पृष्ठ 673-674 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 30 मई, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवत व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० भा० 800 (अ) तारीख 18 सितम्बर, 1980 को अधिकांत करते हुए तथा संलग्नकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् नवार्टज खानों, नवार्टजखट खानों और सिलिका खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रश्नों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

## अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
मजदूर (पुरुष और स्त्री) : चौकीदार, खला-सी, क्लीनर, सीडर, होलकटर, ग्रयन्कट्टर, ऊपर कार्य के लिए)	7.75 रु० (भूमि के लिए)

1

2

वाहक (पम्पर), वाहक, डेनेवाला, केयर-टेकर, कंक्रिट (हस्त मिश्रक), ड्राईवर (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर) सैम्पमेन, माली, पेट्रोल मैन सफेदी करने वाला, पानी बाला अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अनुशाल हैं ।

7.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए)  
9.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

#### अर्द्ध-कुशल :

भिरसी, भंजक, भेद्यक, खनिक, रसोइया, शिशु कल भाया, प्रधान चौकीदार, मखनगर, मुव्वम, सेट तेलवाला, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान भिरसी, कबैरी मैन खान भापरेटर, भण्डारी, स्टाकर, बायलर मैन, बैजर, धूम्रमैन, टिडल, टूली बाला, जमा-वार, बैरा, सफेदी करने वाला, ब्रेक्समैन, मखनगर (लोक, जेल, ट्रक) टोपाज तोपकार (बड़ा/ क्वार्टरमास्टर, क्वार्टरस केकर), एज रनर, पैक वायलर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर फायर बले प्रेस या शुष्कर और परिष्करण श्रमिक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्ध-कुशल हैं ।

9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए)  
11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

#### कुशल :

होहार, बड़ई, कम्पाउण्डर, बिजली भिरसी, शाट फायरर, सफेदी करने वाला, फोरमैन फिटर, खान

पर्यवेक्षक, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, मल्लाईगर, ब्लास्टर, मशीन भिरसी, प्रधान भिरसी, उप मोवरसीयर (अनर्हित), सर्वे-लक, भापरेटर, बायलर मैन, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं ।

11.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)  
14.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

#### लिपिकीय :

लेखाकार (पक्ष) लिपिक, मंशी, भण्डार लिपिक, सामान देने वाला, भण्डारी (खेणी 1 और 2), टैली लिपिक, टाहम कोपर, टूलकोपर, संगणक, टर्कक, धातु-लिपिक, अधिलेखपाल, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाय, जो लिपिकीय हैं ।

11.75 रु०

#### स्पष्टीकरण :—

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, सफेदी मूल्य सम्मिलित हैं तथा साप्ताहिक विभाम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित हैं ।

2. मजदूरी को न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामचारियों को भी लागू हैं ।

3. जहां सविदा या कपार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएगी ।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और अतमर्ष व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यक्तिकर्मचारों को संवेद्य दरों का कमरा: प्रस्ती प्रतिशत और सी प्रतिशत होगी ।

5. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अभिहित करने वाली अवस्था कुछ भी कुशलता या अनुभव न अभिहित करने वाली साधारण विद्याएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से प्रजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

[सं० एस-32019/12/81 डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

S.O. 863 (E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in quartz, quartzite and silica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 673-574 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 30th May, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 403 (E) dated the 30th May, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 30th May, 1981;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in pursuance of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 800(E) dated the 18th September, 1980, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in quartz, quartzite and silica mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

## SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)

## Unskilled :

Mazdoor (male and female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth-cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand Mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White-washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 7.75 (for work above ground). Rs. 9.25 (for work below ground).
--	--

## Semi-skilled :

Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White washer, Breakman, Helper (loco, crane, truck), Topaz topkar (big/quartzite/quartz breaker), Edge runner, Pack wallers, Timberman, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining wokers and other categoies by whay tever name called which are semi-skilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground).
---	--

## Skilled :

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boiler man, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 11.75 (for work above ground). Rs. 14.00 (for work below ground).
--	--

## Clerical :

Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper (Grade I and II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 11.75
---	-----------

## Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract of agreement or othwise are higher than the rates revised by

this notification the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred percent and eighty percent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification,—

- "unskilled work" is work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- "Semi-skilled work" is work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employees and includes unskilled supervisory work;
- "skilled work" is work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019/12/81-WC (MW)]

का० आ० 864 (अ):—ग्रेफाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशोधन मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षातुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 484 (अ) तारीख 18 जून 1981 के अधीन भारत के राजस्व, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 18 जून, 1981 के पृष्ठ 793 से 794 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 18 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 795 (अ) तारीख 16 सितम्बर, 1980 को अधिकांत करते हुए सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ग्रेफाइट खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपबाध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रतिष्ठित में विनिर्दिष्ट हैं, संशोधन मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

## अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

## ग्रेफाइट खान

## अकुशल

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, वाचमैन, खलासी क्लीनर, लदाई करने वाला, रसोइया मददगार, झाड़कश, ब्रेकर (हस्तचालित उपकरणों का प्रयोग करने वाले) आफिस बाय, चपरासी, संदेशवाहक, पानीवाला, वाटर-कैरियर, सफेदीवाला लैपमैन और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अकुशल हैं।	7.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 9.20 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
--	---

## अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोइया, फैंक आया, हेड चौकीदार, मेट, मूकदूध (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) आयल मैन, पम्प-खलासी, शाट फायरर, हेड मिस्त्री, बायलर मैन, थैचर, टिण्डल, ट्रालीमैन, जमादार, सफेदीवाला, मददगार (लोको, जैन, ट्रक), मददगार (बढ़ई, विस्फोटकर्ता, फिटर, ड्रिलर, लोहार, मिस्त्री), प्रचालक, सहायक मैकेनिक, बटलर और रसोइया, अभिरक्षक, हथौड़ा चलाने वाला, माली और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	0.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
---	--

## कुशल

लोहार, बढ़ई, कम्पाउण्डर, बिजली मिस्त्री, शाटफायरर, सफेदीवाला, फोरमैन, फिटर, खान-पर्यवेक्षक, दर्जी, मुख्य रसोइया, इंजनमैन, वैल्वर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, हेड-मिस्त्री, उप-ओवरसियर (अनहिन्त) सर्वेक्षक, प्रचालक, बायलरमैन, कम्प्रेसर-प्रचालक, ड्रक्टर ड्राइवर, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	11.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
---	---

## लिपिकीय

लेखाकार, सहायक, लिपिक मंशी, टंकक, आंशुलिपिक, टूल कोपर, टाइमकीपर और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	11.75 रु०
--	-----------

## स्थापना -

1. इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम ले लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. जहां संधिदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दर अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर है वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. असमर्थ व्यक्तियों और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समूचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों को संदेय दरों का क्रमशः सी प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होगी।

5. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) “अर्द्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।”

[एल 32019/1/81-डब्लू सी (एम डब्लू)]

S. O. 864 (E)—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in graphite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) at pages 793-794 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 18th June, 1981 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour number S. O. 484(E) dated the 18th June, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette :

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 18th June, 1981;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 795(E) dated the 16th September, 1980.

1980, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in graphite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

### THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
<b>Unskilled :</b>	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Watchman, Khalasi, Cleaner, Loader, Cook-helper, Sweeper, Breaker (using manual appliances), Office boy, Peon, Messenger, Waterman, Water carrier, White washer, Lamp man and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 7.75 (for work above ground) Rs. 9.25 (for work below ground)
<b>Semi-skilled/Unskilled supervisory :</b>	
Breaker, Driller, Miner, Cook, Creeche Ayah, Head Chowkidar, Mate/Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head Mistri, Boiler man, Thatcher, Tindles, Trolley man, Jamadar, White-washer, Helper (loco, crane, truck), Helper (carpenter, blaster, fitter, driller, blacksmith, mason), Operator, Assistant Mechanic, Butler-cum-cook, Care-taker, Hammerman, Mali and other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled Supervisory.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
<b>Skilled :</b>	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistri, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, Compressor-operator, Tractor Driver and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 11.75 (for work above ground) Rs. 14.00 (for work below ground)
<b>Clerical :</b>	
Accountant, Assistant, Clerk, Munshi, Typist, Stenographer, Tool keeper, Time keeper and other Categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 11.75

### EXPLANATIONS :-

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

1021 GI/81—2

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates revised by this notification, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification:—

- "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and include unskilled supervisory work;
- "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019/1/81-WC(MW)]

का०आ० 865(अ).--जिप्सम और बाराइट्स खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 402 (अ) तारीख 30 मई, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 30 मई, 1981 के पृष्ठ 669-671 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 30 मई, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 788 (अ) तारीख 15 दिसम्बर, 1980 को अधिष्ठात करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जिप्सम और बाराइट्स खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

## अनुसूची

(1)

(2)

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1)

(2)

## जिप्सम खान

## अकुशल :

(1) आया, (2) ब्रेकर (हस्तचालित साधनों का प्रयोग करने वाला), (3) क्लीनर, (4) ड्राइवर (बैलगाड़ी, ऊंट, गथा या टट्ट, (5) डाक ले जाने वाला, (6) प्रयोगशाला बाय, (7) मजदूर (पुरुष या स्त्री), (8) खनक (9) पिकर (पुरुष या स्त्री), (10) चपरासी, (11) नमूना बाय, (12) झाड़ूकश (पुरुष/स्त्री), (13) पानी वाला (14) चौकीदार, (15) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।

## अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) ब्रेकर (यांत्रिक साधनों का प्रयोग करनेवाला), (2) चैकर, (3) रसायिया, (4) केयर टेकर, (5) औषधालय परिचर, (6) गार्डनर/माली, (7) हैल्पर (बढ़ई, क्लर अपरेटर), (8) हलवाई, (9) प्रधान चौकीदार, (10) खलासी (बुलडोजर), (11) प्रयोगशाला परिचर, (12) मेट मुकुन्दम, (धातुमय खान विनियम, 1961 अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (13) प्वाइंटमैन, (14) सैम्पलर, (15) टेलीफोन परिचर (16) अप्रशिक्षित शिक्षक परिचर, (17) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

## कुशल :

(1) सहायक नमूना लेने वाला, (2) बायू संपीड़ित परिचर, (3) सहायक रसायनज्ञ, (4) सहायक फौर मैन, (5) लोडर, (6) बढ़ई, (7) कंपाऊडर, (8) रसायनज्ञ, (9) डीजल मैकेनिक, (10) ड्रावर, (11) ड्रिलर, (12) नक्शानवीस, (13) बिजली मिस्त्री, (14) फिटर, (15) फैरो-मुद्रक और चैन मैन, (16) जैनरेटर अपरेटर, (17) लाइनमैन, (18) लडाई फोरमैन, (19) लेय मिस्त्री, (20) राज, (21) मिड-वाइफ, (22) मेट (जिसके पास धातुमय खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र है), (23) पम्प

परिचर, (24) रंगसजि, (25) कुशल मजदूर, (26) शाट-फायरर, (27) स्थायी इंजन परिचर, (28) शवेल अपरेटर, (29) उप-ओवरसियर, (30) पर्यवेक्षक (31) टर्नर, (32) टब मरम्मत करने वाला, (33) टिम्बरमैन, (34) वायरमैन, (35) वेल्डर, (36) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।

## लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) नाच और नाई 11.75 रु० का भारसाधक, (3) मुंशी, (4) कार्यालय सहायक, (5) सामग्री देने वाला, (6) आशुलिपिक (7) टाइम कीपर, (8) टंकक, (9) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।

## बाराहटीज खान,

## अकुशल

(1) कर्तक, (2) ड्रेसर, (3) लोडर, (4) मजदूर (पुरुष/स्त्री), (5) खनक, (6) चौकीदार, (7) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।

## अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

(1) गार्डनर/माली, (2) हथोड़ावाला, (3) लोडर (पुरुष/स्त्री), (4) खनक (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

## कुशल :

(1) विस्फोट कर्ता (शाट फायरर), (2) संपीड़ित ड्राइवर, (3) ड्रिलर, (4) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।

## लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आशु-लिपिक, (4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।

## स्पष्टीकरण:—

1. इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रवासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें डेपुटी-मैजिस्ट्रेटों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के त्रुण व्यक्तियों और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के बयस्क कर्मचारियों को संवेद करों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत बड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रकृति कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन अपेक्षित किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वचालन और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या प्रत्यक्ष मजदूरी की व्यवस्था पर अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर है वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[सं०एस० 32019(5)/81-अधिसूची (एस०एस०)]

**S. O. 865(E).**—WHEREAS certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Gypsum and Barytes Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 670-671 of the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated 30th May, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 402(E) dated the 30th May, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 30th May, 1981.

AND WHEREAS the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 788 (E) dated the 15th Sept., 1980, the Central Government, after consulting the Advisory Board,

revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Gypsum and Barytes Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

## THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Gypsum mines	Rs. P.
Unskilled :	
(1) Ayah, (2) Breaker (using manual appliances), (3) Cleaner, (4) Driver (bullock cart, camel, Donkey or mule), (5) Dak runnes, (6) Laboratory boy, (7) Mazdoor (male, female), (8) Miner, (9) Picker (male, female), (10) Peon, (11) Sample boy, (12) Sweeper (male, female), (13) Waterman, (14) Watchman, (15) Other categories by whatever name called which are unskilled.	7. 75 (for work above ground). 9.25 (for work below ground).
Semi-skilled/unskilled supervisory :	
(1) Breaker (using mechanical appliances), (2), Checker, (3) Cook, (4) Care-taker, (5) Dispensary attendant, (6) Gardener/Mali, (7) Helper (carpenter, crusher operator), (8) Halwai, (9) Head chowkidar, (10) Khalesi (buldozer), (11) Laboratory attendant, (12) Mate/muc-cadam (without competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (13) Pointsman, (14) Sampler, (15) Telephone attendant, (16) Untrained creche attendant, (17) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	9. 75 (for work above ground) 11.75 (for work below ground)
Skilled :	
(1) Assistant sample taker, (2) Air compressor attendant (3) Assistant chemist, (4) Assistant foreman, (5) Black-smith, (6) Carpenter, (7) Compounder, (8) Chemist, (9) Diesel mechanic, (10) Driver, (11) Driller, (12) Draftsman, (13) Electrician, (14) Fitter, (15) Ferro printer-cum-chairman, (16) Generator operator, (17) Lineman, (18) Loading foreman, (19) Lathe Mistry, (20) Mason, (21) Midwife, (22) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations 1961), (23) Pump attendant, (24) Painter, (25) Skilled mazdoor, (26) Shot firer, (27) Stationery engine attendant, (28) Shovel operator, (29) Sub-overseer, (30) Supervisor, (31) Turner, (32) Tubrepairer,	11.75 per work below ground) 14.00 (for work above ground)

1	2
(33) Timberman, (34) Wireman, (35) Welder, (36) Other categories by whatever name called which are skilled,	

## Clerical :

(1) Clerk, (2) Incharge watch and ward, (3) Munshi, (4) Office assistant, (5) Store issuer, (6) Stenographer, (7) Time-keeper, (8) Typist, (9) Other categories by whatever name called which are clerical.	11.75
---	-------

## BARYTES MINES

## Unskilled :

(1) Chipper, (2) Dresser, (3) Loader, (4) Mazdoor (Cmale/female), (5) Miner, (6) Watchman, (7) Other categories by whatever name called which are unskilled.	7.75 (for work above ground). 9.25 (for work below ground).
--	--

## Semi-skilled/unskilled supervisory :

(1) Gardener/Mali, (2) Hammerman, (3) Loader (male/female), (4) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	9.75 (for work above ground). 11.75 (for work below ground).
--	---

## Skilled :

(1) Blaster (shot-firer), (2) Compressor Driver, (3) Driller, (4) Other categories by whatever name called which are skilled.	11.75 (for work above ground). 14.00 (for work below ground).
---	--

## Clerical :

(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.	11.75
---	-------

1. The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons, below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of appropriate category.

4. For the purposes of this notification—

(a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

[No. S-32019(5)/81-WC (MW)]

क.० आ० 866 (प्र) — बाक्सहाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संबंध मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अवधानानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिसके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 486 (प्र) तारीख 18 जून, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 जून, 1981 के पृष्ठ 794 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 18 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 782 (प्र) तारीख 12 मितम्बर, 1980 को अधिकांश करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करते के पश्चात् बाक्सहाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संबंध मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

## अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

## बाक्सहाइट खान

अनुसूचक :	द०	प०
(1) क्लीनर (2) मजदूर (पुरुष/महिला), (3) आफिम बाय (4) चपरसी (5) कार्य करने के लिए पिकर (पुरुष/महिला) (6) शाइकश (7) बाजरीम, (8) खनक (9) वाटर केरियर (10) अन्य प्रवर्ग आदि जे किसी भी माम नीचे कार्य के लिए से ज्ञात हो जो अनुसूचक है।	7.75	(भूमि के ऊपर)
	9.25	(भूमि के नीचे)

1

2

**अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी**

(1) सहायक ड्रिलर (2) बुलडोजर खलासी 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए)  
 (3) बड़ई भदवगार (4) नगर प्रचारक 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)  
 मददगार (5) कैटीन बाय (6) बागवान / माली (7) मेट, धातु उत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना  
 (8) मुकुन्दम (धातुत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण पत्र के बिना)  
 (9) नमूने लेने वाला (10) औजार नेज करने वाला (11) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हो जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है।

**कुशल**

(1) लोहार (2) विस्फोटकर्ता (शार्टफायर) 11.75 (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.00  
 (3) बड़ई (4) नगर प्रचारक (5) कैम्पेसर परिवार (6) कैम्पेसर ड्रिलर (7) ड्राइवर (8) बिजली मिस्री (9) फिटर (10) मैकेनिक (11) मेट (धातुत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित) (12) पावा शाबेल प्रचारक (13) पम्पहाइबर (14) पावर और पम्प हाउस प्रचारक (15) पम्प परिवार (16) पर्यवेक्षक (17) ट्रेक्टर प्रचारक (18) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो कुशल है।

लिपिकीय :— (1) लिपिक (2) मुंशी (3) ग्रासुलिपिक (4) टंकक (5) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो लिपिकीय हैं।

**स्पष्टीकरण :—**

1. इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षण न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित करें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के न्यायनी दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मुख्य सम्मिलित हैं तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के तरुण व्यक्तियों और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव या अनुभव अपेक्षित न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) “अर्द्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग

दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिनके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविधा या कदर पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षण दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[एस-32019/9/81-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

S. O. 866(E)—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 794-795 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th June, 1981 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour number S. O. 486 (E) dated the 18th June, 1981 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons, likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 18th June, 1981;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 782 (E) dated the 12th September 81, the Central Government after consulting the Advisory Board revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Bauxite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**SCHEDULE**

1	2
Bauxite mines	
<b>Unskilled</b>	
(1) Cleaner (2) Mazdoor (male/female)	Rs. 7.75 (for work above ground).
(3) Office Boy (4) Peon (5) Picker (Male/Female) (6) miner (7) Sweeper (8) Watchman (9) Water Carrier (10) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.25 (for work below ground)

1

2

**Semi-skilled/unskilled Supervisory**

- (1) Assistant Driller (2) Bull dozer Khalasi (3) Carpenter Helper (4) Crusher Operator Helper (5) Canteen Boy (6) Gardener/Mali (7) Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) (8) Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (9) Sampler (10) Tool Sharper, (11) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.
- Rs. 9.75 (for work above ground).  
Rs. 11.75 (for work below ground).

**Skilled**

- (1) Blacksmith (2) Blister (shotfirer), (3) Carpenter (4) Crusher operator (5) Compressor Attendant (6) Compressor Driller (7) Driller (8) Driver (9) Electrician (10) Fitter (11) Mechanic (12) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) (13) Power Shovel Operator (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator (16) Pump Attendant (17) Supervisor (18) Tractor Operator (19) Other categories by whatever name called which are skilled.
- Rs. 11.75 (for work above ground)  
Rs. 14.00 (for work below ground).

**Clerical**

- (1) Clerk (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.
- Rs. 11.75

**Explanations**

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purpose of this notification:—

- (a) "unskilled work" means work which involves simple operations, requiring little or no skill or experience on the job;
- (b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;
- (c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or

through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

[No. S. 32019/9/81-WC (MW)]

का० आ० 867 (अ) — श्रीमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तावनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की प्रयोजनानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के अन्तर्गत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 426 (अ) तारीख 10 जून, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र, प्रकाशित भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 जून, 1981 के पृष्ठ 721 से 722 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 10 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के अन्तर्गत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 784 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 1980 को अधिसूचित करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् श्रीमाइट खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को, जो इससे उपान्वित अनुसूची के स्तंभ (1) की संस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि वह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख की प्रवृत्त होगी।

**अनुसूची**

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

**श्रीमाइट खानें****अनुमान :**

आया, परिवारक, बेकर, (हस्तबलित उपकरण का प्रयोग करने वाला) बेलवार	7.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(केन्द्रीय) श्रीमाइट, मशीनर, रसोइया-मददगार, हथोड़ा चलाने वाला, लड़ाई करने वाला, सारी, मददगार मजदूर (पुरुष/स्त्री),	9.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
आफिस ब्वाय, चपरासी/सिंघेसनाहक, सर्वेक्षण बालाही, हाइड्रकस (पुरुष/स्त्री), सफ़ेद लेंडर	

1

2

चौकीदार, पानी वाला, पानी ले जाना वाला, लकड़ी काटने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

विस्फोटक सहायक, फ़िटर सहायक, ड्रिल प्रचालक सहायक, परिचारक "ग" प्रवर्ग, सहायक मेकेनिक, बैकसमेन, ब्रेकर (यांत्रिक) उपकरणों का प्रयोग करने वाला (बटलर सह रसोइया, अभिरक्षक, रसोइया, चेकर, चार्जरूम सहायक, औषधालय परिचारक, मददगार (बढ़ई लोहार, मिस्त्री मेकेनिक खनन), हथौड़ा चलाने वाला, लेम्प-रूम परिचारक, पम्प परिचारक, माली, खनन मेट, मेकेनिक मददगार मेल रनर, प्वाइन्टमैन, पारखी, टेलिफोन परिचारक, टिम्बरमैन, अप्रशिक्षित क्रेब परिचारक, रोडनदान-पंखा परिचारक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

एयर बिच हालेज प्रचालक, आटो बिजली मिस्त्री, पेंटर, लोहार, विस्फोटक, संपीडित प्रचालक/चालक, कंक्रिट-मिश्रक प्रचालक, चार्ज मैन, बढ़ई, कम्पाउंडर, केमिस्ट ड्रिल प्रचालक, ड्राइवर आटो, बिजलीमिस्त्री, बेतार प्रचालक, फोरमैन, फ़िटर फ़ैरी होस्ट प्रचालक/चालक, आई एम सी ओ ड्राइवर, इशुआर लारी ड्राइवर, लोको-ड्राइवर, लीडर प्रचालक, लाइन मैन, मेकेनिक, मिस्त्री, मिडवाइफ़, मिस्त्री, पम्प प्रचालक/चालक, कुशल मजदूर, प्रपंचपेक्षी (मैकेनिक) पर्यवेक्षी बिजली, पत्थर दलित प्रचालक, सर्वेक्षक, ज्येष्ठ मेकेनिक टर्नर टिम्बर मिस्त्री, बायर मैन, बेल्टर, वर्क मिस्त्री, खनन इंजन चालक, पहरा और निगरानी प्रभारी, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।

लिपिकीय :

लेखाकार, सहायक, लिपिक, मॅगजीन लिपिक, 11.75 रु. रोकड़िया, मुशी, अभिलेखपाल/ फाइल लिपिक भण्डारी, आशुलिपिक, टाइमकीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण :—

(1) इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक बस्तुओं के रिबाउन्सी दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित हैं तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित हैं।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा निर्भोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के तरुण व्यक्तियों और अक्षय कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के ब्यस्क कर्मचारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

(4) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिनमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

(5) जहां संबिदा या करार पर प्राधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[(सं. एस. 32019(14)/81 डब्ल्यू. सी (एम. डब्ल्यू.)]

शशि भूषण, अवर सचिव

S. O. 867 (E)—WHEREAS certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in chromite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 721—722 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated 10th June, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 426 (E) dated the 10th June, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to public on the 10th June, 1981.

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 784 (E) dated the 12th September, 1980 the Central Government, after consulting the Advisory Board revises, the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in chromite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

## SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
<b>Chromite mines</b>	
<b>Unskilled</b>	
Ayah, Attendant, Breaker (using manual appliances), Belder (Canteen), chowkidar, cleaner, cook-helper, hammerman, loader, lorry helper, Mazdoor (male/female), Office boy, peon Messenger, Survey Khilasi, Sweeper (Male/female) Surface lander, Watchman, Waterman, Watercarrier, Woodcutter other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 7.75 (for work above ground) Rs. 9.25 (for work below ground)
<b>Semi-Skilled/Unskilled Supervisory</b>	
Assistant to blaster, Assistant to fitter, Assistant drill operator, Attendant 'C' category, Assistant mechanic, Bankman, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge room assistant, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, mining), Hammerman, Lamp-room Attendant, Pump attendant, Mail Mining mate, Mechanical helper, Mail runner, Points-man, Sampler, Telephone attendant, Timberman, Untrained creche attendant, Ventilation-fan-attendant. Other categories by whatever name called which are semiskilled/unskilled supervisory.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
<b>Skilled</b>	
Airwinch haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor-operator/ Driver, Concrete mixer operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto, Electrician, Wireless operator, Foreman, Fitter, Ferry driver, Host operator/Driver, IMCO driver, Issuer lorry driver, Loco driver, Loader operator,	Rs. 11.75 (for work above ground) Rs. 14.00 (for work below ground)

1	2
Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump operator/Driver, Skilled mazdoor, Supervisor (Mechanic), Supervisor Electrical, Stone crusher operator, Surveyor, Senior mechanic, Turner Timber mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining, engine Driver, Incharge of watch and ward. Other categories by whatever name called which are skilled.	
<b>Clerical</b>	
Account. Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record Keeper, /File clerk, Store keeper, Stenographer, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 11.75

Explanation—For the purpose of this notification—

- (1) (a) 'unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience for the job.
- (b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- (c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.
- (2) The minimum rates of wages fixed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.
- (3) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by the contractors also;
- (4) Where the prevailing rates of wages based on contract, agreement etc., are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages;
- (5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019/14/81-WC (MW)]  
Shashi Bhushan, Under Secy.